

परिशिष्ट सारणी VI.5: एनबीएफसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2022 के अंत में	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	सितंबर 2024 के अंत में	प्रतिशत घट- बढ़ 2023-24
1	2	3	4	5	6
सकल अग्रिम (1 से 5)	28,95,753	33,99,655	40,27,528	42,92,708	18.5
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	52,069	60,674	84,175	89,800	38.7
2. उद्योग (2.1 से 2.4)	11,15,957	12,69,175	14,96,425	15,90,339	17.9
2.1 सूक्ष्म और लघु	42,353	69,410	1,00,627	1,21,589	45.0
2.2 मध्यम	16,013	19,483	20,961	21,504	7.6
2.3 बड़े	8,90,104	10,21,373	12,32,434	13,00,359	20.7
2.4 अन्य	1,67,486	1,58,908	1,42,404	1,46,887	-10.4
3. सेवाएं (3.1 से 3.10 = 3.ए से 3.डी)	3,92,121	4,68,009	5,66,932	6,08,246	21.1
3.1 परिवहन परिचालक	1,03,283	1,20,245	1,32,810	1,41,289	10.4
3.2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,652	2,107	3,082	2,579	46.3
3.3 पर्यटन, हॉटेल और रेस्तरां	5,971	7,519	7,439	7,860	-1.1
3.4 नौवहन	172	185	272	216	46.9
3.5 पेशेवर सेवाएं	20,154	23,580	25,239	29,377	7.0
3.6 व्यापार	49,837	69,520	92,324	1,05,415	32.8
3.6.1 थोक व्यापार (खाद्य की खरीद के अलावा)	9,290	10,657	14,500	17,632	36.1
3.6.2 खुदरा व्यापार	40,547	58,863	77,824	87,784	32.2
3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	80,264	81,662	88,512	89,482	8.4
3.8 एनबीएफसी	33,774	47,664	60,356	64,319	26.6
3.9 विमानन	1,143	826	455	438	-44.9
3.10 अन्य सेवाएं	95,873	1,14,700	1,56,442	1,67,272	36.4
कुल 3.ए से 3.डी	3,92,121	4,68,009	5,66,932	6,08,246	21.1
3.ए सूक्ष्म और लघु	1,11,482	1,60,253	2,09,555	2,24,653	30.8
3.बी मध्यम	17,503	20,322	28,550	25,073	40.5
3.सी बड़े	76,915	78,518	80,697	95,366	2.8
3.डी अन्य	1,86,221	2,08,917	2,48,129	2,63,155	18.8
4. खुदरा ऋण (4.1 से 4.10)	8,19,433	10,45,168	13,69,820	15,02,697	31.1
4.1 आवास ऋण (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के आवास सहित)	22,340	32,172	33,600	38,467	4.4
4.2 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ	24,771	31,541	40,957	48,142	29.9
4.3 क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि	32,710	44,007	55,736	61,171	26.7
4.4 वाहन/ ऑटो ऋण	3,26,347	3,82,825	4,74,839	5,17,092	24.0
4.5 शैक्षणिक ऋण	14,145	25,324	44,904	58,466	77.3
4.6 मीयादी जमाराशि पर अग्रिम (एफसीएनआर(बी), आदि सहित)	41	213	151	202	-29.3
4.7 शेयर, बॉण्ड, आदि पर वैयक्तिक अग्रिम	11,473	13,389	21,780	23,991	62.7
4.8 स्वर्ण पर वैयक्तिक अग्रिम	1,18,501	1,28,774	1,53,481	1,74,325	19.2
4.9 सूक्ष्म वित्त ऋण/ एसएचजी ऋण	76,223	1,15,187	1,48,503	1,44,162	28.9
4.10. अन्य खुदरा ऋण	1,92,881	2,71,735	3,95,868	4,36,679	45.7
5. अन्य ऋण	5,16,173	5,56,630	5,10,174	5,01,626	-8.3

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित हैं।

3. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई